

The BSE Ltd.
BSE's Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001

National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex Bandra (E) Mumbai- 400 051

SRF/SEC/ 2022

4th November, 2022

Dear Sir,

Sub: Newspaper Clippings of Unaudited financial Results for quarter and half year ended September 30, 2022 - SRF Limited

In Compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find attached herewith copies of unaudited results published in Business Standard (English) and Jansatta (Hindi) newspaper. Copies of said advertisement are also available on the website of the Company at www.srf.com

Request to kindly take this intimation on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For **SRF LIMITED**

Rajat Lakhanpal VP (Corporate Compliance) & Company Secretary

Encl: A/a

SRF LIMITED
Block-C Sector 45
Gurugram 122 003
Haryana India
Tel: +91-124—4354400
Fax: +91-124—4354500
E-mail: info@srf.com
Website: www.srf.com
Regd. Office:
Unit No. 236 & 237, 2nd Floor
DLF Galleria, Mayur Place
Noida Link Road
Mayur Vihar Phase 1 Extension
Delhi 110091

APPENDIX IV [See rule 8 (1)] POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas.

The undersigned being the Authorized Officer of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 or the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 25.05.2022 calling upon the Borrowers PIYUSH JINDAL C/o. BT GLOBAL BUSINESS SERVICE PVT. LTD. AND MEGHA GARG C/o. NAGARRO ENTERPRISES SERVICES PVT. LTD. to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 48,76,614.75 (Rupees Forty Eight Lakhs Seventy Six Thousand Six Hundred Fourteen and Paise Seventy Five Only) against Loar Account No. HHLGRG00387590 as on 18.05.2022 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice

The Borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 02.11.2022

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs. 48.76.614.75 (Rupees Forty Eight Lakhs Seventy Six Thousand Six Hundred Fourteen and Paise Seventy Five Only) as on 18.05.2022 and interes thereon

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

INDEPENDENT FLOOR IN EMILIA ON THE GROUND FLOOR SITUATED AT PLOT NUMBER 8. STREET-F-31. BLOCK-F. VATIKA INDIA NEXT SECTOR-82, GURUGRAM-122004, HARYANA HAVING PRIORITY NUMBER EMILIA/GF/109 ADMEASURING 929.02 SQUARE FEET.

Sd/ Authorised Officer Date: 02.11.2022 Place: GURUGRAM INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED



SRF LIMITED

Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, Second Floor, Mayur Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi - 110091 Tel. No. (Read. Office): (+91-11) 49482870 | Fax: (+91-11) 49482900 | E-mail: info@srf.com | Website: www.srf.com | CIN - L18101DL1970PLC005197

(Rs. in Crores)

STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022

		STANDALONE					CONSOLIDATED				
١.		QUARTE	R ENDED	HALF YEA	R ENDED	YEAR ENDED	QUARTE	R ENDED	HALF YEA	AR ENDED	YEAR ENDED
SI.	Particulars	30-Sep-22	30-Sep-21	30-Sep-22	30-Sep-21	31-Mar-22	30-Sep-22	30-Sep-21	30-Sep-22	30-Sep-21	31-Mar-22
IIVO.		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	2971.84	2291.23	6074.71	4491.03	9953.44	3727.78	2838.97	7622.50	5538.37	12433.66
2	Profit for the period before tax	572.11	451.23	1298.45	872.12	2155.04	618.08	532.42	1459.67	1067.33	2585.55
3	Net Profit for the period after tax	439.15	311.70	947.58	603.27	1507.01	480.99	382.45	1088.99	777.73	1888.92
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	343.46	352.67	730.41	617.46	1530.25	328.44	372.50	762.21	741.11	1909.64
5	Paid up Equity Share Capital	296.42	59.25	296.42	59.25	296.42	296.42	59.25	296.42	59.25	296.42
6	Reserves (excluding Revaluation Resrve)	7955.26	6781.85	7955.26	6781.85	7327.36	8927.39	7466.67	8927.39	7466.67	8267.92
7	Net Worth	8251.68	6841.10	8251.68	6841.10	7623.78	9223.81	7525.92	9223.81	7525.92	8564.34
8	Secuirty Premium Account	509.56	736.25	509.56	736.25	509.56	509.56	736.25	509.56	736.25	509.56
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	-	250.00	-	250.00	250.00	-	250.00	-	250.00	250.00
10	Debt Equity Ratio	0.35	0.38	0.35	0.38	0.38	0.42	0.45	0.42	0.45	0.43
11	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)										
	(a) Basic :	14.81	10.52	31.97	20.37	50.86	16.23	12.91	36.74	26.25	63.75
	(b) Diluted:	14.81	10.52	31.97	20.37	50.86	16.23	12.91	36.74	26.25	63.75
12	Debenture Redemption Reserve	-	62.50	-	62.50	62.50	-	62.50	-	62.50	62.50
13	Debt Service Coverage Ratio	1.64	3.96	2.47	3.86	4.06	1.68	4.04	2.63	4.08	4.35
14	Interest Service Coverage Ratio	13.28	18.56	17.19	18.72	19.04	13.46	20.25	17.98	20.81	20.99

Place: Gurugram Date: November 03, 2022

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half Yearly results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52(4) read with Regulation 63(2) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Half Yearly results are available on the website of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Company's website (www.srf.com). For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) i.e National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited and can be accessed on the URL www.nseindia.com; www.bseindia.com.

> For and on behalf of the Board **Ashish Bharat Ram** Chairman and Managing Director

We always find a better way

Chemicals Business | Packaging Films Business | Technical Textiles Business

(A Govt. of India Undertaking)

Zonal Office:- 2nd Floor, Mangalm JTM Mall, Jagatpura, Jaipur

SALE NOTICE (E-AUCTION)

E-Auction Sale Notice to General Public for sale of Immovable property Under SARFAESI Act 2002 with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on "As is where is basis. As is what is Basis, whatever there is basis

	occurry interest	0 10 10000					
S. N o.	Name of the Borrower/ Guarantor/Mortgagor/Hypothecator/ Legal Heirs and Branch Name	Details of the Immovable property	Amount of Secured debt	Reserve Price/ Earnest Money Deposit/ Bid Incremental amount	Namé of	Date and Time for Inspection of property & Papers	of
1.	Branch: TONK ROAD EAB TARU SAXENA AND Dr. NAVNEET SAXENA A/c No. 50213443767	Residential House situated at S-1 Second Floor Plot No.235 A Shri Gopalnagar Gopalpura Jaipur (Raj.)302018 in the name of Smt. Taru Saxena W/o Sh. Navneet Saxena, Admeasuring Area: 2000 Sq feet	Rs. 63,06,011.33/- (Rupees Sixty Three Lac Six Thousand Eleven and Thirty Three paisa only) due and outstanding as on 31/05/2021 along with future interest, cost, expenses and charges thereon.	Rs. 60.00 Lacs Rs. 06.00 Lacs Rs. 25,000/-	IDIB30107133823 ARUN SAINI	FROM 05.11.2022 to 21.11.2022 from 11.00 AM	22.11.2022 11.00 A.M. to 4.00 PM with
2.	Branch: TONK ROAD EAB OMPRAKASH VERMA A/c No. 50278206515	Residential Flat No202, Samyak Residency, VIII Muhana, Sanganer, Jaipur (Raj), admeasuring built up area 736.5 Sq Feet in the name of Mrs. Jaya Sain W/o Mr. Om Prakash Sain	Seventy Four and paisa four	re interest, cost,	ARUN SAINI	to 05.00 PM	unlimited extension.

Detail of encumbrance on property, if any known to Bank- Not known to Bank

1 .For property details and photograph of the property and auction terms and conditions please visit: https://ibapi.in.

2. Bidders are advised to use Property ID Number mentioned above while searching for the property in the website with https://ibapi.in_and_www.mstcecommerce.com For further details and Terms & Conditions, contact:-1. Sunita Meena (Senior Manager) (Recovery)(Mobile No. 89801 38920) 2. Arun Saini- (Authorised Officer) Mob. No- 946498383 Date: 02.11.2022 Place: Jaipur Authorized Officer, Indian Bank



SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED

Head Office: Level -3, Wockhardt Towers, East Wing C-2 Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051; **Tel**: 022 4241 0400, 022 4060 3100 ; **Website**: http://www.shriramcitv.in Registered Off.: Office No. 123, Angappa Naicken Street, Chennai – 600 001; Branch Off: 245-246, 2nd Floor Omkaram Tower, Hanuman Nagar-D, Amarpali Marg, Vaishali Nagar, Jaipur-302021

APPENDIX-IV-A [SEE PROVISION TO RULE 8(6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower/s and Guarantor/s that the below described immovable properties mortgaged/ charged to The Shriram City Union Finance Limited, The Physical possession of which have been taken by the Authorized Officer of Shriram City Union Finance Limited, will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" basis in e-auction on 21-Nov-2022 between 11:00 a.m. to 12:00 p.m. for recovery of the balance due to The Shriram City Union Finance Limited from the Borrowers And Guarantors, as mentioned in the table. Details of Borrowers and Guarantors, amount due, Short Description of the immovable property and encumbrances known thereon, possession type, reserve price and earnest money deposit & increment are also given as

Name of Borrowers/ Co-Borrowers/ Guarantors/Mortgagers	Date & Amount of 13(2) Demand Notice	Description of Property	Reserve Price (Rs.) & Bid Increment	Earnest Money Deposit Details (EMD) Details.	Date & Time of Auction	Contact Person and Inspection date
Loan Agreement No.	Demand Notice	All the part and	Rs. 20,00,000/-	EMD amount to be	21st	Property
JAPR1TF1509260001	dated-	parcel of the	(Rupees Twenty lakh	deposited by way of	Nov.	Disposal No.
JAPR1TF1605310001	17-5-2021 of	land/flat bearing	Only)	RTGS/ NEFT to the	2022	022-40081572
	Rs.	Situated at Plot	Bid Increment: Rs.	account details	Time:	
1 M/C DAI DA I DIIII DEDC /Dross	47, 80,364/-	No. 1/518-B,	Rs. 30,000/- (Rupees	mentioned herein	11.00	Mr. Rajesh
1. M/S BALRAJ BUILDERS (Prop.	(Rupees Forty	NEB, EXT.	Thirty thousand only)	below:	AM to	kumar
DEVENDRA SINGH),	Seven lakhs	Housing Board,		BANK NAME- AXIS	12.00	choudhary
2. MR.DEVENDRA SINGH S/O JORMAL	Eighty	Alwar Rajasthan		BANK LIMITED	PM	Mo.946011781
SINGH,	Thousands	Admeasuring		BRANCH- DR.		
3. MR. RAVI KUMAR S/O JORMAL SINGH	Three Hundred	extent of 57.00		RADHAKRISHNAN		MR. Mukesh
,	and Sixty Four	sq. Mtr.	Earnest Money	SALAI, MYLAPORE,		Kumar
All having their address at:	only) as on 17	Boundary	Deposit (EMD) (Rs.)	CHENNAI - 600004		7410890890 Time
3/124, NEB EXT. PREET VIHAR, NEAR TP	April 2017 with	Details:-	Rs. 2,00,000/-	BANK ACCOUNT NO-		14-Nov-2022
NAGAR, ALWAR Raj.301001	further interest	East:- Road	(Rupees Two lakh	Current Account No .		from
	and charges as	West:- House	Only)	006010200067449		11.00AM to 2.0
NPA Date- 03-Jan2017	per terms and	No. 1/517,1/518	Last Date of	IFSC CODE-		PM
NIA Date- 03-3aii2017	conditions	North:- Other	submission EMD:	UTIB0000006		
Date of Possession & Possession Type		Land	19-Nov-2022			
13-Aug-2022 Physical Possession		South:- House	Time			
Encumbrances known Not Known		No. 1/518 A	10.00 am to 5.00 pm			

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the http://www.shriramcity.in/borrower provided in the Shriram City Union Finance Limited website.

Place : Alwar Sd/- Authorised Officer Shriram City Union Finance Ltd Date: 04-11-2022

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION SALE

WHEREAS, the undersigned is the Authorized Officer of. Standard Chartered Bank, having one of its place of business at 10, Jeevandeep Building, Sansad Marg New Delhi-1 [Hereinafter called "the Bank"].

The undersigned being the Authorized Officer of Standard Chartered Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the Act) and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the Rules) issued demand notices dated 28.04.2022 calling upon the borrower's M/S. Medesign Biotech Private Limited Through Its Directors Mond. Maroof Reza and Mr. Manish Kumar/Mohd. Maroof Reza S/O Mohd. Ehsanul Haque/Mr. Manish Kumar Š/O. Sukesh Prasad (the Borrower's) calling upon them to repay the outstanding amount being ₹17.276.909.98/- (Rupees One Crore Seventy Two Lacs Seventy Six Thousand Nine Hundred Nine and Ninety Eight Paise Only) along with further interest w. e. f. 28.04.2022 till actual date of payment within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower's having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Physical Possession of the property mortgaged with the bank, described hereinbelow, to recover the said outstanding amount, in exercise of powers conferred on me under Section 13(4) of the Act read with Rule 8 of the Rules on 20th September 2022.

Now, the public in general is hereby informed that the said property would be sold by e-auction on 09th December 2022 through e-auction platform provided at web-portal www.matexauctions.com and bidding shall take place through online electronic bidding on the said website, as per the procedure and the terms and conditions stated below:

The Reserve Price of the said Property is ₹13,944,000/- (Rupees One Crore Thirty Nine Lacs Forty Four Thousand Only)

The earnest money deposit would be ₹1,394,400/- (Rupees Thirteen Lakh Ninety Four Thousand Four Hundred Only) PROCEDURE AND TERMS & CONDITIONS OF PUBLIC AUCTION BY INVITING BIDS:

1. The property can be inspected on 18th November 2022 between 11:00 A. M. and 1:00 P. M.

- 2. The Tender/bid form with the terms and conditions can be obtained online from the website http://www.matexauctions.com. The tender form and the terms and conditions would be available in the website from 09th November 2022 to 09th December 2022 up to 1:00 P.M.
- 3. The bid/tender form complying with all necessary terms shall be submitted along with a Demand Draft/Pay Order of ₹1,394,400/- (Rupees Thirteen Lakh Ninety Four Thousand Four Hundred Only) towards the Earnest Money Deposit favoring Standard Chartered Bank Loan A/c No., 51916908 to the Authorized Officer The earnest money deposit shall not carry any interest.
- 4. BID form shall be downloaded and duly filled and uploaded to www.matexauctions.com
- 5. Last date to submit the bid along with Earnest Money Deposit is on or before 5:00 P.M. on 8th December 2022.
- 4. Along with the bid form the proposed bidder shall also attach his/her identity proof and the proof of residence such as copy of the passport, election commission ation card driving license etc. and a copy of the PAN card issued by the
- 5. Bidders shall hold a valid Digital Signature Certificate issued by competent authority and valid email ID {e-mail ID is necessary for the intending bidder as all the relevant information and allotment of ID & password by M/s Matex Net Pvt Ltd may be conveyed through e- mail}.
- 6. On the auction date all the bids so received would be opened and the bid of the highest bidder, provided it is above the reserve price, may be accepted by the bank. In no eventuality would the property be sold below the reserve price. However, the bidders personally present for the auction shall have the right to further enhance their bid price by a minimum sum of ₹1,00,000/- (One Lack Only), and in the event of higher bid price being offered, the Bank shall have the right to accept the same. 7. After each bid, the window for the next bid shall be open for 5 mins within which the next bid can be placed.
- 8. The Auction time shall be 120 Minutes from 11:00 A.M. to 1:00 P.M. with unlimited extensions of 5 minutes each. In case bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the e-Auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes.
- 9 Thereafter, when the Bank confirms the sale, the purchaser will be required to pay deposit of 25% (twenty-five percent) of the sale, price, after adjusting the earnest money deposit, immediately with the undersigned.
- 10. The balance amount of the purchase price shall be paid by the purchaser to the undersigned on or before the fifteenth day of confirmation of the sale of the said property or such extended period as may be agreed upon in writing by the parties.
- 11. In default of payment & within the time as mentioned above, the bank shall be at liberty to forfeit the earnest money deposit and proceed with re-auction
- 12. The defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may be subsequently sold.
- 13. All the payments shall be made by the purchaser by means of the demand draft/pay order favoring Standard Chartered Bank Loan A/c No. 51916908.
- 14. On receipt of the sale price in full, the bank shall be issuing a sale certificate in favor of the purchaser and would hand over the possession of the property
- 15. The said immovable property described in the schedule herein below shall remain and be at the sole risk of the purchaser in all respects including loss or damage
- by fire or theft or other accidents, and other risk from the date of the confirmation of the sale by the undersigned Authorised Officer 16. The Purchaser shall not be entitled to annul the sale on any grounds whatsoever.
- 17. The Demand Draft/Pay Order deposited towards the earnest money shall be returned to the unsuccessful bidders.
- 18. For all purposes, sale of the said property is strictly on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS". To the best of the knowledge and information of the Authorised Officer of the bank, no other encumbrances exist on the property.
- 19. All expenses relating to stamp duty, registration charges, transfer charges and any other charges in respect of the above referred property shall be borne
- 20. The Authorised Officer is not bound to accept the highest offer or any or all offers, and the bank reserves its right to reject any or all bid(s) without assigning
- 21. The particulars about the properties specified in the tender document have been stated to the best of the information of the Authorised Officer and the Authorised Officer shall not be answerable for any error, mis -statement or omission in this proclamation. Save and except above, the Bank is not aware of any other encumbrance of the secured asset.
- 22. The prospective bidders can inspect the property on the date and time mentioned as above.
- 23. This notice is also notice to the above said borrower's M/S. Medesign Biotech Private Limited Through Its Directors Mohd. Maroof Reza and Mr. Manish Kumar/ Mohd. Maroof Reza S/O Mohd. Ehsanul Haque/Mr. Manish Kumar S/O. Sukesh Prasad at Unit No. 102, 1st Floor, Krishna Palaza, Plot No.3A, Sector-8, Rohini, Delhi-110086 And 40-41, Second Floor, Pocket-21, Sector-24, Rohini, Delhi110085 under Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

DESCRIPTION OF PROPERTY

CONSOLIDATE ONE PROPERTY HAVING TWO PLOT NUMBERS AS PER BELOW MENTIONED DETAILS: BUILT-UP ENTIRE SECOND FLOOR, WITHOUT ROOF RIGHTS, A PART OF FREE HOLD PROPERTY BEARING NO.-40, LAND AREA MEASURING 60.00 SQ. MTRS, IN POCKET 21, SECTOR-24, ROHINI, DELHI -110085 ALONGWITH UNDIVIDED 1/4TH SHARE OF STILT PARKING AREA, WITH PROPORTIONATE RIGHTS OF LAND

21, SECTOR-24, ROHINI, DELHI- 110086, ALONGWITH UNDIVIDED 1/4TH SHARE OF STILT PARKING AREA, WITH PROPORTIONATE RIGHTS OF LAND UNDERENEATH BUILT-UP ENTIRE SECOND FLOOR, WITHOUT ROOF RIGHTS, A PART OF FREE HOLD PROPERTY NO.-41, LAND AREA MEASURING 60.00 SQ. MTRS, IN POCKET

BOUNDED AS UNDER: ON THE NORTH: AS PER TITLE DEED ON THE SOUTH: AS PER TITLE DEED

Date: 04/11/2022

ON THE EAST: AS PER TITLE DEED ON THE WEST: AS PER TITLE DEED

> Further details please contact: Mr. Sarabdeep Singh Thapar on 011 49861235 / 09810834383 at Standard Chartered Bank 10, Parliament Street, New Delhi

Sd/-(Authorized Officer) Standard Chartered Bank

















FINANCIAL EXPRESS

EASE OF PROCUREMENT

Award of PPP wheat silos gathers pace

₹3,000-cr investment likely to build 7 mt capacity in 3-4 years

SANDIP DAS New Delhi, November 3

THE FOOD CORPORATION of India (FCI) will have awarded contracts for the construction of wheat silos with capacity of 7 million tonne (mt) under the private public partnership (PPP) model by the end of this month, according to official sources. These silos are expected to be built over the next three-four years, with investments to the tune of over ₹3,000 crore.


Silos are sub-mandi yards, which could bring ease of procurement of grains for farmers and lead to significant reduction in logistical costs.

Of 3.4 mt of silos with railway sidings awarded to private entities, around 1.8-mt capacity has been created and the balance is at various stages of construction.

Private entities including Adani Agri Logistics and KCC Infrastructure have been awarded the contracts.

In addition, under a new 'hub and spoke' model approved by the food ministry in 2020, 3.5-mt silo projects are being awarded to private entities, with an estimated investment of ₹2,800 crore. This is part of a broader

₹9,400-crore project to build wheat silos with 11 mt of capacity during the next threefour years under the PPP mode. These silos will be spread over 249 locations across Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Bihar, West Bengal, Jammu, Uttarakhand and Kerala.Silos will be



used for storing wheat for the FCI. Currently, the silos are being built under the design, build, fund, own and transfer (DBFOT) mode, under which the land is owned by the FCI and via the design, build, fund, own and operate (DBFOO) model, under which land belongs to private entities.

The FCI will use these for storage of wheat through a lease of 30 years with private entities. Fixed storage charges to be paid by the FCI to private entities, based on a per-tonne, per-year basis, are the bidding parameters. This fixed charge escalates by 70% of the wholesale price index and 30% of the consumer price index.

In 2005, under a pilot project to modernise storage infrastructure, construction of 0.5 mt of storage capacity under the build, own and operate (BOO) model was carried out by Adani Agri Logistics. Subsequently, on recommendation of a high-level committee chaired by former food minister Shanta Kumarin 2015, construction of silos with railway sidings commenced. Then the food ministry approved a 'hub and spoke' model because of challenges faced in land acquisition for railway sidings.

Food ministry officials say that if food grains are stored in silos, losses due to theft, pilferage and transportation would be negligible.

IIM-A gets new logo, to reconstruct parts of main campus

FE BUREAU Ahmedabad, November 3

THE SIX-DECADE-old leafy red brick campus of the oldest Indian Institute of Management at Ahmedabad (IIM-A) is all set to undergo a muchneeded structural restoration soon. At a recent meeting, the Board of Governors (BoG) of India's business school greenlighted the project to expand the campus infrastructure including reconstruction of parts of its main campus citing safety of residents.

Announcing the reconstruction plans for IIM-A, professor Errol D'Souza, the institute's director said that the BoG has decided to reconstruct some of the old buildings situated on the old campus as part of the larger project to expand and restore the campus buildings."The institute takes pride in its antecedents and rich legacy including the iconic architecture, which were piv-



otal in its growth into a premier world-class institution. However, over time, some of

13.28

18.56

the buildings have been facing structural damage, deterioration and have become unin-

habitable, posing a safety concern for the campus's residents," said D'Souza.

On Thursday, IIM-A also launched a redesigned website

along with a referral logo. Interestingly, the discussions and consultations on reconstruction of old buildings have been going on for almost two decades. The deterioration of the structures at IIM-A was raised first at the institute's **Building Committee meeting** in July 1982. "BoG considered

all relevant reports, especially the ones that were undertaken in the last year. This included meetings and presentations by two groups of experts who were tasked with the assessment of the conditions and structural status of the buildings. The first was a group of structural and earthquake engineers from IIT Roorkee and the second, an international group comprising restoration experts, architects and structural engineers," he said at press conference here.



SRF LIMITED

Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, Second Floor, Mayur Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase I Extn., Delhi - 110091 Tel. No. (Regd. Office): (+91-11) 49482870 | Fax: (+91-11) 49482900 | E-mail: info@srf.com | Website: www.srf.com | CIN - L18101DL1970PLC005197

STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022

(Rs. in Crores)

				STANDALONE	Si de la companya de		4	(CONSOLIDATE	D	
		QUARTE	R ENDED	HALF YEA	R ENDED	YEAR ENDED	QUARTE	R ENDED	HALF YEA	R ENDED	YEAR ENDER
SI. No.	Particulars	30-Sep-22	30-Sep-21	30-Sep-22	30-Sep-21	31-Mar-22	30-Sep-22	30-Sep-21	30-Sep-22	30-Sep-21	31-Mar-22
WU.		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	d Unaudited Unaudite 7 7622.50 5538.3 12 1459.67 1067.3 15 1088.99 777.7 160 762.21 741.1	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	2971.84	2291.23	6074.71	4491.03	9953.44	3727.78	2838.97	7622.50	5538.37	12433.66
2	Profit for the period before tax	572.11	451.23	1298.45	872.12	2155.04	618.08	532.42	1459.67	1067.33	2585.55
3	Net Profit for the period after tax	439.15	311.70	947.58	603.27	1507.01	480.99	382.45	1088.99	777.73	1888.92
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	343.46	352.67	730.41	617.46	1530.25	328.44	372.50	762.21	741.11	1909.64
5	Paid up Equity Share Capital	296.42	59.25	296.42	59.25	296.42	296.42	59.25	296.42	59.25	296.42
6	Reserves (excluding Revaluation Resrve)	7955.26	6781.85	7955.26	6781.85	7327.36	8927.39	7466.67	8927.39	7466.67	8267.92
7	Net Worth	8251.68	6841.10	8251.68	6841.10	7623.78	9223.81	7525.92	9223.81	7525.92	8564.34
8	Secuirty Premium Account	509.56	736.25	509.56	736.25	509.56	509.56	736.25	509.56	736.25	509.56
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	13	250.00	102	250.00	250.00		250.00	19	250.00	250.00
10	Debt Equity Ratio	0.35	0.38	0.35	0.38	0.38	0.42	0.45	0.42	0.45	0.43
11	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)										
	(a) Basic :	14.81	10.52	31.97	20.37	50.86	16.23	12.91	36.74	26.25	63.75
	(b) Diluted :	14.81	10.52	31.97	20.37	50.86	16.23	12.91	36.74	26.25	63.75
12	Debenture Redemption Reserve		62.50	-	62.50	62.50		62.50	*	62.50	62.50
13	Debt Service Coverage Ratio	1.64	3.96	2.47	3.86	4.06	1.68	4.04	2.63	4.08	4.35

NOTES:

Place : Gurugram

Date: November 03, 2022

14 Interest Service Coverage Ratio

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half Yearly results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52(4) read with Regulation 63(2) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Half Yearly results are available on the website of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Company's website (www.srf.com). For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) i.e National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited and can be accessed on the URL www.nseindia.com; www.bseindia.com.

17.19

18.72

Ashish Bharat Ram Chairman and Managing Director

13.46

20.25

17.98

20.81

For and on behalf of the Board

20.99

19.04

We always find a better way Chemicals Business | Packaging Films Business | Technical Textiles Business



FIVE-STAR BUSINESS FINANCE LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed a draft red herring prospectus dated November 9, 2021 read along with the addendum dated June 8, 2022 (the "DRHP") and has filed the RHP with the RoC and thereafter with Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and the Stock Exchanges. The RHP shall be available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the websites of the BRLMs i.e., ICICI Securities Limited at www.edelweissfin.com, Kotak Mahindra Capital Company Limited at https://investmentbank.kotak.com/ and Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited at www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/index.html, the website of the BSE Limited at www.nseindia.com, respectively. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, see "Risk Factors" beginning on page 22 of the RHP. Potential investors should not rely on the DRHP for any investment decision.

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act") or any state law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the Securities Act, and (ii) outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in compliance with Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

*This is a belief statement of the Company. | *As of June 30, 2022







Business Finance Limited



तथा वसूली की तिथि

तक सभी भावी ब्याज

एवं व्यय

06 जून, 2021

दिनांक : 04.11.2022

In The Court Of Ms Baljinder Siddhu Principal Judge Family Court, Malerkotla

Tauseef Ahmed Khan S/o Sh. Azmat Ali Khan S/o Sh. Najabat Ali Khan R/o Mohalla Hazrat Sheikh, Malerkotla

Maleeha Khan W/o Tauseef Ahmed Khan S/o Sh. Azmat Ali Khan R/o Mohalla Hazrat Sheikh, Malerkotla D/o Margoob Ali Khan R/o B-946, Sainik Vihar, Kankarkheda, meerut

CNR NO: PBSGF4-003094-2021 Next Date: 22-11-2022 Publication Issued To: Maleeha Khan W/o Tauseef Ahmed Khan S/o Sh. Azmat Ali Khan R/o Mohalla Hazrat Sheikh, Malerkotla D/o Margoob Ali Khan R/o B-946, Sainik Vihar. Kankarkheda, Meerut, U.p.

In above titled case, the defendant(s)/ respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/ respondent(s) should appear in person or through counsel on 22-11-2022 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov. in/?trs=district_notice&district=Sangrur Principal Judge Family Court Malerkotia

Notice

REDRESSAL COMMISSION UPBHOKTA NYAY BHAWAN, F' Block, **REVISION PETITION NO.458 OF 2017** (Against the order dated 22.11.2016 in First Appeal No.1156/2012 of the Lucknow State Consumer Disputes Redressal commission, Uttar Pradesh.)

M/s Gopal Auto

United India Insurance Co. Ltd. & Anr. .. . Respondent Shri Pradeep Kumar Tomar Alias Pradeep Tomar S/o Shri Anand Pal Singh,

R/o House 8/347, Vikas Nagar Lucknow, Uttar Pradesh United India Insurance co. Itd. & Anr. have filed a revision petition 458 of 2017 against the order dated 22.11.2016 in first appeal no.1156 of 2012 of the Uttar Pradesh State Commission Lucknow. The above mentioned revision petitio is pending before the National Commission. New Delhi wherein you have been arrayed as Respondent. WHEREAS This Commission has Ordered vide order dated 08.08.2022 to effect service upon you by this publication returnable

NOW THEREFORE, TAKE NOTICE That you commission in person or through your counse /authorised representative on 18.11.2022 at 10.30 am, failing which the petition will be disposed of ex-parte on merits dated this the 2nd september,2022

Section Officer

आर्कीटेक इन्फो लिमिटेड सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने के

लिए विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक, कॉपॅरिट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र

के मंत्रालय के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में

आर्कोटेक इन्फो लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय

एफ-701-ए. लाडोसराय, नई दिल्ली-110030 में गम जनता को एतदद्वारा सुचित किया जाता

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के अंतर्गत कें। गयोजित वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों अपनी आपत्ति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र के पते बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जम कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

> आवेदक के लिए और उसकी ओर हस्ता/ ऋषम सरा निर्देशव

पंजीकृत कार्यालय का पताः दिनांकः २ नवंबर, 2022

डीन: 02103953 एफ-701-ए, लांबोसराय, नई दिल्ली-110030

अमिकारा एसेट्स रिकेस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

अमिकारा एसेट्स रेकिस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : सं. ९, एमपी नगर, प्रथम गली, कोंगू नगर एक्स., तिरुपुर-641607 (तिमलनाडु) कॉर्पोरेट कार्यालय : सी/515, कनिकया जिलियन, एलबीएस रोड तथा सीएसटी रोड का जंक्शन, बीं

5. श्री अंजु अग्रवाल (सह-कर्जदार) पत्नी राजीव गुप्ता 22/44, ओल्ड विजय नगर कॉलोनी, आगरा

7. श्री दया शंकर रिव शंकर एओपी (सह-कर्जदार) 83, ओल्ड विजय नगर कॉलोनी, आगरा

282004 6. श्री हिमांशु अग्रवाल (सह-कर्जदार) पुत्र रवि शंकर

83, ओल्ड विजय नगर कॉलोनी, आगरा 282001

कॉर्पोरेट कार्यालयः सी/515, कनकिया जिलियन, एलबीएस रोड तथा सीएसटी रोड का जंक्शन, बीकेसी एनेक्सी, निकट इक्विनॉक्स, कुर्ला (पश्चिम) मुम्बई-400070 दूरभाष : (022) 26544000

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के साथ पठित धारा 13(2) को तहत कर्जदारों को सूचना

जबकि ओमकारा एसेट रिकंस्टक्शन प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'ओएआरपीएल' के रूप में संदर्भित) कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित एक प्रतिभतिकरण और पनर्निर्माण कंपनी है और वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभतिकरण और पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 3 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है, के अधिकृत प्राधिकारी ने इंडसइंड बैंक लिमिटेड तथा 'ओएआरपीएल' के बीच तथा इसके द्वारा निष्पादित एसाइनमेंट एग्रीमेंट के आलोक में इंडसइंड बैंक लिमिटेड से ऋण खाते प्राप्त किए और जबिक 'ओएआरपीएल' अब अधिनियम के तहत प्रतिभत लेनदार (ओमकारा पीएस06/2021-22 टस्ट के टस्टी के रूप में कार्यरत), और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए , कॉलम संख्या 2 में कर्जदारों/ सह-कर्जदारों/बंधककर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि को आगे के ब्याज के साथ चुकाने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया, लेकिन उनमें से कुछ को विभिन्न कारणों से नोटिस तामील नहीं किया जा सका

विवरण निम्नवत है कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/ बकाया राशि (₹.) (30-09-स्वीकृत राशि बंधककर्ता(ओं) का नाम एवं पता 2022 तक) मैसर्स मधुसुदन व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार) बी-6, लॉयर्स कॉलोनी, आगरा 282005 (रु.) तथा 2. श्री दीपेंद्र शंकर अग्रवाल (सह-कर्जदार) पुत्र रवि शंकर अग्रवाल स्वीकृति की तिथि ₹. 4,26,80,437/-83. ओल्ड विजय नगर कॉलोनी. आगरा 282001 DAA00219N (रुपये चार करोड़ 3. श्री रचित अग्रवाल (सह-कर्जदार) पत्र रमा शंकर रु. 3,81,00,000/-छब्बीस लाख अस्सी 22/44, ओल्ड विजय नगर कॉलोनी, आगरा 282004 29.11.2017 हजार चार सौ सैंतीस 4. **श्री अनुराग अग्रवाल (सह-कर्जदार/बंधक)** पुत्र रामशंकर मात्र) तथा भुगतान 22/44, ओल्ड विजय नगर कॉलोनी, आगरा 282004

अचल संपत्ति का विवरण: वाणिज्यिक संपत्ति संख्या 03, बीजीएफएस, संजय प्लेस, हरिपर्वत वार्ड, आगरा 282001, स्वामी: मेसर्स चंद्रमौल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, श्री अनुराग अग्रवाल के माध्यम से

कॉलम संख्या 1 में उल्लिखित कर्जदारों / सह-कर्जदारों / बंधककर्ताओं को उनसे संबंधित कर्जदारों / सह-कर्जदारों / बंधककर्ताओं के सामने कॉलम संख्या 3 में दर्शाई गई कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहते हुए नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के 60 दिनों भीतर उक्त राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है क्योंकि यह संबंधित ऋण खातों के संबंध में देय पाई गयी है, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कुल राशि आगे के ब्याज और अन्य राशि जो भुगतान की तारीख तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, 'ओएआरपीएल' ऊपर वर्णित संपत्तियों पर प्रतिभृत हितों को लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने हेतू बाध्य होगा।

दिनांकः नवंबर 04,2022 ह./- अधिकृत प्राधिकारी, ओमकारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड स्थानः आगरा (ओमकारा पीएस06/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत)

PUBLIC NOTICE UNDER REGULATION 8(10) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 (AS AMENDED)

AMBUJA CEMENTS LIMITED

Regd Office: P.O. Ambujanagar, Taluka: Kodinar, Amreli, District: Junagadh, Gujarat 362 715. Corporate Identification Number: L26942GJ1981PLC004717 Tel: +91 02795-221137, 232065; Fax: +91 02795 232629; Website: www.ambujacement.com

 This public notice ("Notice") is being issued by Endeavour Trade and Investment Ltd ("Acquirer") pursuant to Regulation 8(10) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto (the "SEBI (SAST) Regulations") to the Accepted Public Shareholders (as defined below).

2. On May 15, 2022, the Acquirer made a public announcement of an open offer to the public shareholders of Ambuja Cements Limited (the "Target Company") in accordance with the provisions of the SEBI (SAST) Regulations (the "Open Offer"). The tendering period of the Open Offer was from August 26, 2022 to September 9, 2022. The offer price was ₹ 385 (Rupees Three Hundred and Eighty-Five) per equity share of the Target Company ("Offer Price") and 7,02,442 (Seven Lakhs Two Thousand Four Hundred and Forty-Two) equity shares of the Target Company were accepted in the Open Offer ("Accepted Shares"). The payment of consideration towards Accepted Shares to tendering shareholders was completed on September 12, 2022 and the post offer advertisement dated September 16, 2022 was made in accordance with Regulation 8(12) of the SEBI (SAST) Regulations.

On September 16, 2022, the board of directors of the Target Company (subject to receipt of shareholder approval and other regulatory approvals) approved the raising of funds by way of issuance of 477,478,249 (Forty-Seven Crores Seventy Four Lakhs Seventy Eight Thousand Two Hundred Forty Nine) warrants, each convertible into, or exchangeable for, 1 (one) fully paid-up equity share of the Company of face value of Rupees 2 (Rupees Two) each ("Warrants") at a price of ₹ 418.87 (Rupees Four Hundred and Eighteen point eight seven) each payable in cash (the "Warrants Issue Price") to Harmonia Trade and Investment Ltd, a promoter group entity of the Target Company (the "Warrant

In terms of Regulation 8(10) of the SEBI (SAST) Regulations, if an acquirer or persons acting in concert with the acquirer, acquires shares of a target company during the period of 26 (twenty six weeks) after the completion of the tendering period at a price that is higher than the offer price, then the acquirer and persons acting in concert are required to pay the difference between the highest acquisition price and the offer price to all shareholders whose shares were accepted in the open offer within a period of sixty from the date of such acquisition.

5. Pursuant to this Notice, the Acquirer intends to inform the public shareholders of the Target Company whose shares were accepted in the Open Offer (the "Accepted Public Shareholders"), that, since the Warrant Issue Price is higher than the Offer Price, the Acquirer in compliance with Regulation 8(10) of the SEBI (SAST) Regulations, will be making an additional payment of ₹ 33.87 per equity share (being the difference between the Warrant Issue Price and the Offer Price) to the Accepted Public Shareholders. The said payment will be made by the Acquirer by November 15, 2022; being 60 days from September 16, 2022 being the date of acquisition.

The Acquirer will through Link InTime India Private Limited, the registrar to the Open Offer, send a correspondence to the Accepted Public Shareholders informing them of the aforementioned in due

This Notice is being published in all such newspapers in which the Detailed Public Statement, Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum and Post-Offer Advertisement, in each case for the Open Offer were

Signed for and on behalf of the Acquirer

Name: Shakil Ahmad Toorabally

: Director Place : Ebene, Mauritius

Date : 3rd November, 2022

दक्षिण रेलवे कार्य निविदा सचना

ई-निविदा सं. : टीपीजे-ई-26-2022-2023 दिनांक : 01.11.2022 ई–निविदा सं. : टीपीजे–ई–27–2022–2023 दिनांक : 02.11.2022 भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से मंडलीय रेलवे प्रबंधक (वैद्युत सामान्य सेवायें) दक्षिण रेलवे. तिरुचिरापल्ली द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिये ई—निवदायें आमंत्रित की जाती हैं।

1. ई—निविदा सं. : टीपीजे—ई—26—2022—2023, कार्य का नाम : तिरुचिरापल्ली मंडल — विद्यमान पिटलाइन का उन्नयनीकरण – सीसीसी / टीपीजे पर चेयरकार वंदे–भारत ट्रेनसेट के अनुरक्षण हेत 1 – वैद्युत सामान्य व्यवस्थायें – कार्यानुबंध, (समापन अवधि : 30 दिवस), निविदा का अनुमानित मूल्य (रु.) : 12,78,555 / –, धरोहर राशि जमा (रु.) : 25,600 / –, निविदा पुस्तिका की लागत (रु.) : 3,070 / —

2. ई–निविदा सं. : टीपीजे–ई–27–2022–2023, कार्य का नाम : तिरुचिरापल्ली मंडल कोच अनुरक्षण डिपो में पिट—लाइंस की क्षमता का संवर्द्धनीकरण तथा डेम पिट में पोर्टल का प्रावधान – वैद्युत व्यवस्थायें – कार्यानुबंध, (समापन अवधि : 120 दिवस), निविदा का अनुमानित मूल्य (रु.) : 17,74,907 / –, धरोहर राशि जमा (रु.) : 35,500 / –, निविदा

पुस्तिका की लागत (रु.) : 4,250 / — क्रमांक : 1 निविदा बंद होने एवं खुलने की तिथि तथा समय : 25.11.2022 को 15.00 बजे।

क्रमांक : 2 निविदा बंद होने एवं खुलने की तिथि तथा समय : 28.11.2022 को 15.00 बजे।

अन्य विवरणों के लिये वेब पोर्टल : www.ireps.gov.in->E-Tender->Works->View जमदकमते देखें। कृपया ध्यान रखें कि केवल ऑनलाइन निविदायें स्वीकार्य हैं और निविदाओं को डिजिटल विधि से हस्ताक्षरित किया जाना है।

मंडलीय रेलवे प्रबंधक (वैद्युत) सामान्य सेवायें

Follow us on : Twitter.com/GMSRailway

आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात—362266, शाखा कार्यालय : 7वां तल, कॉर्पोरेट पार्क

संजय प्लेस, आगरा–282002 परिशिष्ट IV (प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 का नियम 8(1) देखें) अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 20.02.2020 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताओं नामतः शैलेंद्र सिंह सिकरवार, प्रमोद कुमार सिकरवार तथा मैसर्स एस.एस. एंटरप्राइजेज को सूचना | में अंकित राशि रु. 26,47,235.55 / – (रुपये छब्बीस लाख सैंतालिस हजार दो सौ पैंतीस एवं पचपन पैसे चूंकि ऋणकर्तागण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित

मात्र) का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। संपत्ति का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम ८ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा | 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत 31 अक्टूबर 2022 को अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, रु. 26,47,235.55 / – (रुपये छब्बीस लाख सैंतालिस हजार दो सौ पैंतीस एवं पचपन पैसे मात्र) की एक राशि तथा इस राशि

पर ब्याज हेतु आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। ऋणकर्ताओं का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की | धारा 13 की उप—धारा 8 के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

संपत्ति आवासीय फ्लैट सं. 204–ए के समस्त वह भाग तथा अंश जो प्रथम तल पर, आवृत्त क्षेत्र माप 90. 52 वर्ग मीटर, भुखंड सं. 12, 13, 14 एवं 17 पर निर्मित अपार्टमेंट में, रीगल रेजिडेंसी, आगरा एन्क्लेव कॉलोनी, कामयानी हॉस्पिटल के पीछे, मौजा ककरेटा, तहसील एवं जनपद आगरा–282007 में स्थित और इस प्रकार परिसीमित हैं : पूर्व— फ्लैट नंबर 204, पश्चिम— अन्य की संपत्ति, उत्तर— निकास आम लॉबी, दक्षिण– जायदाद दीगर।

दिनांक : 31.10.2022 स्थान : आगरा

प्राधिकृत अधिकारी आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

एस आर एफ् लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः द गैलेरिया, डीएलएफ मयुर विहार, यूनिट संख्या 236 व 237, द्वितीय तल, मयुर प्लेस, नोएडा लिंक रोड, मयुर विहार फेज 1 एक्सटेंशन, दिल्ली-110091 फोन (पंजीकृत कार्यालय): (+91-11) 49482870 | फैक्स: (+91-11) 49482900 | ई-मेल: info@srf.com | वेबसाइट: www.srf.com | सीआईएन: L18101DL1970PLC005197

30 सितम्बर 2022 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध वर्ष हेतु एकल एवं संचित वित्तीय परिणाम

				एकल			60		सचित		ta .
豖.		समाप्त	तिमाही	समाप्त	अर्द्ध वर्ष	समाप्त वर्ष	समाप्त	तिमाही	समाप्तः	अर्द्ध वर्ष	समाप्त वर्ष
क्र. सं	विवरण	30 सितम्बर 22	30 सितम्बर 21	30 सितम्बर 22	30 सितम्बर 21	31 मार्च 22	30 सितम्बर 22	30 सितम्बर 21	30 सितम्बर 22	30 सितम्बर 21	31 मार्च 22
, vi		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंके क्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित
1:	संचालनों से कुल आय	2971.84	2291.23	6074.71	4491.03	9953.44	3727.78	2838.97	7622.50	5538.37	12433.66
2	अवधि हेतु कर पूर्व लाभ	572.11	451.23	1298.45	872.12	2155.04	618.08	532.42	1459.67	1067.33	2585.55
3	अवधि हेतु कर पश्चात् शुद्ध लाभ	439.15	311.70	947.58	603.27	1507.01	480.99	382.45	1088.99	777.73	1888.92
	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [(अवधि हेतु लाम/ (हानि) (कर		352.67	730.41	617.46	1530.25	328.44	372.50	762.21	741.11	1909.64
5.	पश्चात्) एवं कुल व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल कर के] प्रदत्त समता अंश पूँजी	296.42	59.25	296.42	59.25	296.42	296.42	59.25	296.42	59.25	296.42
6.	संचित (पुनर्मूल्यांकन संचित के अतिरिक्त)	7955.26	6781.85	7955.26	6781.85	7327.36	8927.39	7466.67	8927.39	7466.67	8267.92
7.	शुद्ध संपत्ति	8251.68	6841.10	8251.68	6841.10	7623.78	9223.81	7525.92	9223.81	7525.92	8564.34
8.	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	509.56	736.25	509.56	736.25	509.56	509.56	736.25	509.56	736.25	509.56
9.	प्रदत्त ऋण पूँजी / बकाया ऋण	(2)	250.00	20	250.00	250.00	590	250.00	12	250.00	250.00
10.	ऋण पूँजी अनुपात	0.35	0.38	0.35	0.38	0.38	0.42	0.45	0.42	0.45	0.43
11.	प्रति अंश आय (रु. 10 प्रत्येक के) (जारी एवं बंद प्रचालनों हेतु) (रुपये में)										
	(अ) मूलभूत	14.81	10.52	31.97	20.37	50.86	16.23	12.91	36.74	26.25	63.75
	(ब) तरल	14.81	10.52	31.97	20.37	50.86	16.23	12.91	36.74	26.25	63.75
12.	ऋण पत्र शोधन रिजर्व	*	62.50	#2 20-40-01	62.50	62.50		62.50		62.50	62.50
13.	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	1.64	3.96	2.47	3.86	4.06	1.68	4.04	2.63	4.08	4.35
14.	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात	13.28	18.56	17.19	18.72	19.04	13.46	20.25	17.98	20.81	20.99

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 03 नवम्बर, 2022

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के साथ पठित विनियम 52(4) एवं विनियम 63(2) के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल किए गए तिमाही एवं अर्द्ध वार्षिक परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही एवं अर्द्ध वार्षिक परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज(ओं) की वेबसाइट (www.nseindia.com एवं www.bseindia.com) पर तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.srf.com) पर उपलब्ध है।

एलओडीआर विनियमां के विनियमन 52 (4) में संदर्भित अन्य लाइन आइटम हेतु, स्टॉक एक्सचेंज(ऑ) अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बीएसई लिमिटेड को प्रासंगिक प्रकटीकरण दिए गए हैं तथा यूआरएल www.nseindia.com; www.bseindia.com पर देखे जा सकते हैं।

कृते एवं मंडल की ओर से

आशीष भरत राम अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

हम हमेशा एक बेहतर तरीका ढूँढते हैं रसायन व्यवसाय | पैकेजिंग फिल्म व्यवसाय | टेक्निकल टेक्सटाइल व्यवसाय

www.readwhere.com

क्षेत्रीय कार्यालय, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड जबकि निम्नहस्ताक्षरकर्ता केनरा बैंक , के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में विलीय अस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का संख्याक 54) की धारा 13 (12) तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 नियम 3 के अधिन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग पत्र निम्नखाते के आगे वर्णित दिनांको को (विवरण निम्न वर्णित है) सम्बधित ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता तथा सम्पत्ति के मालिको से भुगतान की मांग करते हुए सम्बन्धित सुचना के अन्तर्गत राशि इस सुचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर सुचना में उल्लेखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना को जारी किया। ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतदद्वारा ऋणी/ गारंटर/बंधककर्ता और आम जनत को सुचना दी जाती है कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने उस अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत उस नियम के नियम 8 व 9 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को प्रतिकात्मक कब्जे मे ले लिया है। ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता को विशेषतः और सर्व साधारण को सामान्यतः एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कोई भी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों के साथ

शाखा का नाम ऋणी व जमानतीयों का नाम व पता	माग नाटिस की तिथि	बकाया धनरााश डिमांड नोटिस	वंधक चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण
शाखाः एसएमई रुद्रपुर श्री योगेश कुमार (उधारकर्ता)	18/07/2022	(सालह लाख छियासठ	आवासीय भूमि एवं भवन जो ग्राम बिगवाड़ा, तहसील रुद्रपुर, जिल उधम सिंह नगर में खसरा नंबर 194/2 मिन, चक नंबर 114 प्लाट नंब
पुत्र श्री माला राम, निवासी मकान नं. 174, शिव मंदिर, वार्ड नंबर 4,	कब्जे की तिथि	और तिरानवे पैसे मात्र)	70/ए 87.36 वर्ग मीटर या .0087 हेक्टेयर में श्री योगेश कुमार पुत्र श्र माला राम के नाम पर ।
गदरपुर, पिन 263152	31/10/2022	म प्रमावा ज्वाज	सीमाएँ: पूर्वः रास्ता 6.09 मीटर, पश्चिमः प्राइवेट प्लाट नंबर 65 उत्तरः भुखंड सांख्य 71, दक्षिणः श्रीमती रेणु का प्लाट।

लेन देन न करें तथा सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों के साथ कोई भी लेन देन केनरा बैंक की जिम्नलिखित राशि एवं उस पर ब्याज व अन्य खर्चों के ऋणभार के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित

JINDAL STAINLESS (HISAR) LIMITED

केनरा बैंक 🖈 Canara Bank

परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपल्बध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 के प्रावधान को आकर्षित किया गया है।



EXTRACTS OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND **HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2022**

स्थान : हल्हानी

(₹ in crores except per share data)

अधिकृत अधिकारी

			Consc	olidated	
Sr.	Particulars	For the qua	arter ended	For the half year ended	For the year ender
No.		30 September 2022 Unaudited	30 September 2021 Unaudited	30 September 2022 Unaudited	31 March 2022 Audited
1	Total income from operations	3,926.02	3,743.08	7,379.98	15,011.36
2	EBITDA"	322.70	566.90	660.13	2,153.27
3	Net profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	265.33	509.64	542.48	1,891.02
4	Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	317.07	629.75	697.56	2,435.63
5	Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	253.66	497.47	561.42	1,942.48
6	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	254.78	542.22	562.35	2,006.86
7	Paid up Equity Share Capital (face value of ₹2/- each)	47.19	47.19	47.19	47.19
8	Other equity				4,862.25
9	Earning per share (EPS) (face value of ₹2/- each)				85
	a) Basic	10.75	21.08	23.79	82.33
	b) Diluted (EPS for the period not annualised)	10.75	21.08	23,79	82.33

Place: Gurugram

Date: 03 November 2022

 The above is an extract of the detailed format of quarterly and half yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure) Requirements) Regulations, 2015. The full format of quarterly and half yearly financial results are available on the company's website: (www.jsh/stainless.com) and on the websites of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com). 2. Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR)

By Order of the Board of Directors

Jagmohan Sood Whole Time Director

(रु. करोड में)

aifera

For Jindal Stainless (Hisar) Limited

(₹ in crores)

	For the qua	rter ended	610.89 503.93 503.93	For the year ende	
Particulars	30 September 2022 Unaudited	30 September 2021 Unaudited		31 March 2022 Audited	
Total income from operations	3,448.14	3,415.09	6.519.17	13,549.29	
EBITDA*	295.03	501.23	610.89	1,939.99	
Profit before tax (before exceptional items)	243.02	452.28	503.93	1,714.75	
Profit before tax (after exceptional items)	243.02	452.28	503.93	1,714.75	
Profit after tax	180.69	337.52	375.33	1,275.23	

3. The financial results of the company for the quarter and half year ended 30 September 2022 have been reviewed by the audit committee and approved by the board of directors at their respective meetings held on 03 November 2022 and the limited review of the same has been carried out by the statutory auditors of the company 4. These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 and other

recognized accounting practices and policies to the extent applicable. On 29 December 2020, the Board of Directors of the Company had approved a Composite Scheme of Arrangement (the 'Scheme') under Section 230 to 232 (read with Section 66 and other applicable provisions) of Companies Act, 2013 amongst the Company, Jindal Stainless Limited, JSL Lifestyle Limited, Jindal Lifestyle Limited, JSL Media Limited and Jindal Stainless Corporate

Management Services Private Limited. The Scheme having appointed date of 01 April 2020 is subject to necessary statutory and regulatory approvals under applicable laws, including approval of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench ("NCLT"). Subsequent to the approval of the Scheme by Shareholders and Creditors on 23 April 2022 with the requisite majority, the Company filed the second motion application before the Hon'ble NCLT and

the Hon'ble NCLT vide its Order dated 13 July 2022 has directed that Notice be issued to the Income Tax authorities, the Registrar of Companies and other authorities. The next date of hearing is 11 November 2022.

JINDAL STAINLESS

(CIN: L27205HR2013PLC049963)

Regd. Office: O.P. Jindal Marg, Hisar-125 005 (Haryana) | Tel: (01662) 222471-83 | Fax: (01662) 220499 Email Id. for Investors: investorcare.jshl@jindalstainless.com | Website: www.jshlstainless.com